

अथवा

आधुनिक जीवन में मोबाइल विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखिए।

- वर्तमान समय में मोबाइल की महत्ता
- मोबाइल फोन द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाएँ
- मोबाइल फोन से होने वाले नुकसान

अथवा

परीक्षा के कठिन दिन विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए।

15. 84-बी/3, राणाप्रताप मार्ग, सेक्टर-5, द्वारका, नई दिल्ली निवासी सुदीप की तरफ से दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के संबंध में पत्र लिखिए। [5]

अथवा

नवीं कक्षा में हिन्दी विषय के चयन के कारणों तथा आज के युग में हिन्दी की उपयोगिता बताते हुए विदेश में रहने वाले मित्र को पत्र लिखिए।

16. बंसल प्रकाशन प्रा० लि० दिल्ली को डी. टी. पी. आपरेटर की आवश्यकता है। इस पद हेतु अपनी योग्यताओं का विवरण देते हुए व्यवस्थापक को स्ववृत्त सहित आवेदन-पत्र लिखिए। [5]

अथवा

राज्य के परिवहन सचिव transport@delhi.gov.in को एक ईमेल लिखिए, जिसमें आपकी बस्ती तक नया बस मार्ग आरंभ कराने का अनुरोध हो।

17. आप सिक्योरिटी सविसेज कम्पनी चलाते हैं। आपको सिविल (सुपरवाइजर) गार्ड की आवश्यकता है, इसके लिए 25-50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। [4]

अथवा

कोरोना जैसी महामारी से बचाव हेतु प्रधानमंत्री द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू करने हेतु 30-40 शब्दों में संदेश लिखिए।